



SSC - CHSL

← संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर →

STAFF SELECTION COMMISSION

भाग – 3

तार्किक योग्यता एवं विज्ञान



तार्किक योग्यता

अध्याय	पृष्ठ अंक्या
1. शृंखला	1
2. शादृश्यता	7
3. वर्गीकरण	16
4. अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण	21
5. कोडिंग - डिकोडिंग	29
6. दिशा और दूरी	37
7. एकत अभ्यन्ध	53
8. क्रम व्यवस्था	61
9. बैठक व्यवस्था	66
10. शब्दों का तार्किक क्रम	82
11. गणितीय शंक्रियाएं	86
12. वेन आरेख	90
13. पहेली	96
14. न्याय निगमन	102
15. लुप्त पदों का भरना	110
16. पारा	117
17. निर्णयन क्षमता	122
18. Counting of figures	128
19. आकृति शृंखला	144
20. कागज मोड़ना/काटना	150
21. आकृति शादृश्यता	155

22. आकृति वर्गीकरण	158
23. आकृति निर्माण	160

३ा. विज्ञान

1. भौतिक विज्ञान	166
2. ऐश्यन विज्ञान	201
3. जीव विज्ञान	234

शृंखला (Series)

शृंखला परीक्षण श्रेणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर यह ज्ञात करना पड़ता है कि यह श्रेणी क्रम/नियम का अनुसरण कर रही है।

इस परीक्षण के अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (1) अंक शृंखला
- (2) वर्णमाला शृंखला
- (3) अंकों/अक्षरों की बारम्बारता शृंखला

➤ शृंखला परीक्षण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिये।

- (1) शब्दों पहले पूरी शृंखला चलाने का प्रयास करते हैं।
- (2) यदि शृंखला न चले तो Break करके चलाते हैं।
- (3) शब्दों अन्त में Alternate Series चलाते हैं।

(1) अंक शृंखला -

इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की शृंखला दी जाती है। यह शृंखला जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि पर आधारित होती है।

Type - 1 शृंखला में गलत पद ज्ञात करना।

इसे शृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है। इसके लिए शर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि उस नियम के अनुसार कौन-का पद परिवर्तित नहीं हो रहा है, वही गलत पद है।

उदाहरण - 1 निम्नलिखित संख्या शृंखला में कौन-सी संख्या अनुपयुक्त है।


76, 98, 126, 160, 200, 248, 298

- | | |
|---------|---------|
| (A) 248 | (B) 200 |
| (C) 160 | (D) 298 |

Ans. (A)

हल - उपरोक्त शृंखला का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मालूम होता है कि शृंखला का छठा पद अनुपयुक्त

है क्योंकि प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या अपनी पहली संख्या से 6 अंक अधिक है।



अतः 248 के स्थान पर 246 होगा।


उदाहरण - 2 निम्नलिखित शृंखला में कौन-सी संख्या ऐसी है जो कि शृंखला में अनुपयुक्त है ?

5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18, 23

- | | |
|--------|--------|
| (A) 6 | (B) 9 |
| (C) 12 | (D) 10 |

Ans. (D)

हल - उपरोक्त शृंखला का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि शृंखला -2, +3, +5, -2, +3, +5 के क्रम में घट एवं बढ़ रही है।



उपरोक्त शृंखला में अंक '6' को बाद 11 आना चाहिए।

अतः शृंखला में अनुपयुक्त संख्या 10 है।

Type - 2 शृंखला को पूरा करना -

इसके अन्तर्गत दिए गए शृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान को रिकॉर्ड किया जाता है अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह (?) द्वारा निरूपित कर दिया जाता है, फिर अन्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस क्रम का पता लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर आने वाली अपयुक्त संख्या का चयन करें।


उदाहरण - 3 शृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन-सी संख्या आएगी

16, 23, 31, 40, 50, 61, ?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 81 | (B) 83 |
| (C) 77 | (D) 73 |

Ans. (D)

हल - अपरीक्त श्रृंखला का छवलोकन करने पर हम पाते हैं कि श्रृंखला +7, +8, +9, +10 के क्रम में बढ़ रही है।




अतः प्रथनवाचक यिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या 73 होगी।

उदाहरण - 4 अपरीक्त श्रृंखला में प्रथनवाचक स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी ?

5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33, ?

- (A) 11 (B) 22
(C) 29 (D) 34

Ans. (B)



अतः प्रथनवाचक यिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या 22 होगी।

Type - 3 श्रेणी के नियम

श्रेणी के नियम 2 प्रकार के होते हैं।

- (1) समान्तर श्रेणी
(2) गुणोत्तर श्रेणी

(1) समान्तर श्रेणी - समान्तर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार दो पदों का अन्तर समान होता है। समान्तर श्रेणी के किसी पद में ऐसे उसके पूर्व के पद को हटाने पर प्राप्त संख्या 'पदान्तर' कहलाता है। यदि समान्तर श्रेणी का प्रथम पद a हो एवं पदान्तर d हो, तो समान्तर श्रेणी होगी।

$$a, (a+d), (a+2d) + (a+3d) \dots \dots \dots$$

अतः समान्तर श्रेणी का n वां पद, $T_n = a + (n-1)d$
(जहां, a प्रथम पद एवं d पदान्तर हैं)

उदाहरण - 5 श्रेणी 3, 5, 7, 9..... का 10 वां पद क्या होगा ?

- (A) 15 (B) 20
(C) 12 (D) 21

Ans. (D)

हल - 10 वां पद

$$T_n = a + (n-1)d$$

$$T_{10} = 3 + (10-1)2$$

$$T_{10} = 3 + 18$$

$$T_{10} = 21$$

उदाहरण - 6 यदि किसी समान्तर श्रेणी का प्रथम पद

5. पदान्तर 3 एवं अन्तम पद 80 हो, तो पदों की संख्या ज्ञात करें।

- (A) 24 (B) 23
(C) 26 (D) 29

Ans. (C)

हल - $a = 5, d = 3, T_n = 80, n = ?$

$$T_n = a + (n-1)d$$

$$80 = 5 + (n-1)3$$

$$(n-1) = \frac{80-5}{3}$$

$$n-1 = 25$$

$$n = 25 + 1$$

$$n = 26$$

(2) गुणोत्तर श्रेणी - ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है, 'गुणोत्तर श्रेणी' कहलाती है।

इस अनुपात को गुणोत्तर श्रेणी का 'शार्वनुपात' कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का 'शार्वनुपात' किसी पद में उसके पूर्व पद से भाग देने पर प्राप्त होता है अर्थात्

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{t_3}{t_2} = \frac{t_4}{t_3} = \dots \dots \dots = \frac{tn}{tn-1} = \text{शार्वनुपात}$$

यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a एवं शार्वनुपात r हो, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, $T_n = a r^{n-1}$

उदाहरण - 7 श्रेणी 3, 9, 27, 81..... का 6 वां पद कौन सा है ?

- (A) 729
(C) 1681

- (B) 243
(D) 1747

Ans. (A)

हल - प्रथम पद $a = 3$

$$\text{शार्वानुपात } d = \frac{a}{3} = 3$$

$$\begin{aligned} 6 \text{ वां पद}, \quad T_6 &= a \cdot r^{n-1} \\ &= 3 \cdot 3^{6-1} \\ &= 3 \times 3^5 \\ &= 3 \times 243 = 729 \end{aligned}$$

उदाहरण - 8 श्रेणी $7, 14, 28, \dots, \dots$ का 10 वां पद कौन-सा होगा ?

- (A) 3216 (B) 2736
(C) 2684 (D) 3584

Ans. (D)

हल - प्रथम पद $a = 7$

$$\text{शार्वानुपात } r = \frac{14}{7} = 2$$

$$\begin{aligned} 10 \text{ वां पद}, \quad T_{10} &= a \cdot r^{n-1} \\ &= 7 \times 2^{10-1} \\ &= 7 \times 2^9 \\ &= 7 \times 512 \\ &= 3584 \end{aligned}$$

(2) वर्णमाला शृंखला -


इसके अन्तर्गत दी गई शृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला से सम्बन्धित अक्षरों की एक शृंखला दी जाती है, जिसमें एक या दो अक्षर लुप्त कर दिए जाते हैं, अथवा उस इथान पर प्रश्नवाचक चिन्ह (?) द्वारा निकृपित किया जाता है।

उदाहरण - 9 दी गई शृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के इथान पर क्या आएगा ?

- $J \quad K \quad M \quad P \quad T \quad ?$
 (A) X (B) W
 (C) Y (D) कोई नहीं

Ans. (C)

हल -




अतः प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के इथान पर आगे वाला उपयुक्त अक्षर Y होगा।

उदाहरण - 10 L7C, N9F, P12I, R16L, ? इस शृंखला में प्रश्नवाचक इथान पर क्या आएगा ?

- (A) U210 (B) S21P
(C) S200 (D) T210

Ans. (D)

हल -



अतः प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के इथान पर उपयुक्त अंक-अक्षर शमूह T210 होगा।

उदाहरण - 11 निम्न शृंखला के लुप्त अक्षरों के इथान पर क्या आएगा ?

- ab _ baabc _ aabcb _ abcb _
 (A) bcaa (B) cbaa
 (C) abca (D) aacb

Ans. (B)

हल - खाली इथान के दोनों ओर अक्षर 'b' प्रयुक्त हुआ है तथा इस शृंखला में आगे दो 'b' के बीच 'C' अक्षर प्रयुक्त हुआ है इसलिए शृंखला के शुरू में दो 'b' के बीच अक्षर C प्रयुक्त होगा।

अगले खाली इथान के दोनों ओर C एवं a का प्रयोग हुआ है तथा शृंखला से ठीक पीछे देखने पर 'C' एवं 'a' के बीच अक्षर b का प्रयोग हुआ है।

अतः हम कह सकते हैं कि शृंखला abcba बनेगी।

अतः विकल्पानुसार, उत्तर cbaa होगा।

(3) अंकों अक्षरों की बारम्बारता शृंखला -

इसके अन्तर्गत अंक, अक्षर एक निश्चित क्रमानुसार बार-बार आते हैं, इस प्रकार अंकों/अक्षरों की एक शृंखला बनती है जिसमें बीच के या अन्त के एक या दो अंक या

अंकार लुप्त कर दिए जाते हैं और अन्यथियों को लुप्त अंक/अंकार का पता लगाना होता है।

उदाहरण-

02487503001024875030010

- (A) 2,4 (B) 0,1
(C) 0,2 (D) 4,8

Ans. (A)


हल - दिए गए अंकों की श्रृंखला को ध्यान से देखने पर हम पते हैं कि 02487503001 बार-बार क्रम से आ रहा है।

अतः अगले दो अंक 2 व 4 होंगे।

उदाहरण हल शहित

- (1) 4, 10, 22, 46, ? लुप्त अंक्या छात किजिए।
(A) 56 (B) 66
(C) 76 (D) 94

Ans. (D)




- (2) 87, 90, 84, 88, 81, ?, ?

- (A) 86,78 (B) 86,88
(C) 86,88 (D) 85,93

Ans. (A)

हल -



अतः विकल्प (A) 86,78 शही होगा।


- (3) निम्नलिखित में से कौनसी अंक्या अनुक्रम में शही नहीं है -

- 3, 6, 10, 16, 21, 28

- (A) 10 (B) 3
(C) 16 (D) 21

Ans. (C)

हल -




अतः विकल्प (C) 16 शही होगा।

- (4) 2, 12, 36, 80, 150, ? लुप्त अंक्या छात करें।

- (A) 210 (B) 258
(C) 252 (D) 194

Ans. (C)

हल -



अतः विकल्प (C) 252 शही होगा।


- (5) निम्न में से कौनसी अंक्या अनुक्रम में नहीं आती है ?

19, 28, 39, 52, 67, 84, 102

- (A) 84 (B) 102
(C) 67 (D) 52

Ans. (B)

हल -




अतः विकल्प (B) 102 गलत संख्या होगी।

- (6) BDFH, IKMO, PRTV, ? लुप्त शब्द कीजिए
 (A) WYAC (B) WXYA
 (C) WXYZ (D) WYZA

Ans. (A)

हल -




अतः विकल्प (A) ठीक होगा।

- (7) 4E, 8I, 13N, 19T, ? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 26U (B) 26A
 (C) 26Z (D) 25X

Ans. (B)

हल -




अतः विकल्प (B) शही होगा।

- (8) IKMO, TVXZ, ? LMNO लुप्त संख्या ज्ञात करें
 (A) ABCD (B) CEGH
 (C) EGIK (D) GIKN

Ans. (A)

हल -



अतः विकल्प (A) शही होगा।

- (9) ab _ dbc _ cda _ d _ bcab _ d
 (A) cdabac (B) cdaabc
 (C) adabac (D) dadabc

Ans. (A)


हल - abcd/bcda/cdab/dabc/abcd

अतः विकल्प (A) ठीक होगा।

- (10) 15, 30, 60, 120, ? लुप्त संख्या ज्ञात करें।

- (A) 250 (B) 245
 (C) 240 (D) 260

Ans. (C)




अतः विकल्प (C) शही होगा।

(11) 120, 60, 30, 15, ? लुप्त संख्या ढात करें।

- (A) 7.5 (B) 5.7
 (C) 3.0 (D) 8.5

Ans. (A)

हल -




(12) 4, 10, ?, 82, 244, 730

- (A) 218 (B) 28
 (C) 24 (D) 77

Ans. (B)

हल -



TopperNotes
Unleash the topper in you

शादृश्यता (ANALOGY)

किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से सम्बन्ध या समानता को शादृश्यता या समरूपता कहा जाता है।

शादृश्यता के अन्तर्गत समान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रकार 1 - हिन्दी शब्द शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए हिन्दी शब्दों के सम्बन्ध पर विचार करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका सम्बन्ध दिए गए शब्दों या तीसरे शब्द के साथ स्थापित हो जाके।

(i) समरूप शब्द ज्ञात करना :- इसके अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों में दिए गए दो शब्दों के सम्बन्ध पर विचार करते हुए उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका सम्बन्ध दिए गए शब्दों या तीसरे शब्द के साथ स्थापित होता है।

उदाहरण - 1 :- दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द को चुनिए।

गढ़ी : धारा : महाशागर : ?

- | | |
|------------|------------|
| (A) प्रवाह | (B) तालाब |
| (C) बाँध | (D) समुद्र |

Ans - (A) प्रवाह

हल :- जिस प्रकार गढ़ी के पानी से धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाशागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है।

उदाहरण - 2 :- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका से सम्बन्धित है, उसी प्रकार काठमाण्डू किससे सम्बन्धित है?

- | | |
|------------|-----------|
| (A) तिब्बत | (B) भारत |
| (C) भूटान | (D) नेपाल |

Ans. (D) नेपाल

हल :- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका की राजधानी है, उसी प्रकार, काठमाण्डू नेपाल की राजधानी है।

(ii) समरूप युग्म ज्ञात करना :- इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में दो शब्द दिए होते हैं, जो कि आपस में किसी प्रकार से सम्बन्धित होते हैं। ठीक इसी प्रकार का सम्बन्ध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी होता है।

उदाहरण - 3 :- दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द - युग्म को चुनिए।

उद्देशिका : संविधान :: ? : ?

- (A) शब्द : शब्दकोश
- (B) विजय-वस्तु : पत्रिका
- (C) अपष्टीकरण : कविता
- (D) प्रस्तावना : पुस्तक

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, संविधान की उद्देशिका होती है, ठीक उसी प्रकार पुस्तक की प्रस्तावना होती है।

(iii) शब्दों के समरूप शब्द तथा समरूप शब्दों के लिए विशेष वर्ग चुनना

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में कुछ शब्द दिए होते हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनना होता है जो ठीक वैश्वा ही हो और उसे की आरम्भ में दिए गए शब्द है और वह शब्द ज्ञात करना होता है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच विशेषता दर्शाता है।

उदाहरण - 4 :- कौन वैश्वा ही है और - भूकम्प, चक्रवात, ड्वालामुखी विश्फोट

- (A) वैश्विक ऊज्ञा
- (B) बाढ़
- (C) दुर्घटनाएँ
- (D) परमाणु विश्फोट

Ans. (B) बाढ़

हल :- जिस प्रकार भूकम्प, चक्रवात एवं ड्वालामुखी विश्फोट प्राकृतिक आपदाएँ हैं। उसी प्रकार बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है।

उदाहरण - 5 :- नीचे तीन शब्द दिए हैं, जिनमें कुछ शामान्य विशेषता है, उसी विकल्प को चुनिए।

शाँप, छिपकली, मगरमच्छ

- | | |
|------------|-------------|
| (A) लरीसूप | (B) खतनधारी |
| (C) लवधारी | (D) हिरण |

Ans. (A)

हल:- शाँप, छिपकली और मगरमच्छ तीनों लरीसूप हैं।

उदाहरण - 6 :- वह विकल्प ज्ञात कीजिए, जिसमें वही अम्बन्ध हो, जो नीचे दिए गए तीनों शब्दों में है।

शाजा, शगी, महल

- | |
|----------------------------|
| (A) कबूतर, चिड़िया, औजधालय |
| (B) बकरा, बकरी, किला |
| (C) भौंथ, मकड़ी, जल |
| (D) शेर, शेरनी, गुफा |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, शाजा - शगी दोनों साथ में महल में निवास करते हैं, उसी प्रकार शेर और शेरनी दोनों साथ में गुफा में निवास करते हैं।

(iv) दोहरी समरूपता :-

इसके अन्तर्गत प्रश्न में यिन्ह (::) के बाईं और एवं दाईं ओर दो - दो शब्द दिए गए होते हैं। दोनों ओर के शब्दों में एक-एक शब्द लुप्त रहता है।

लुप्त शब्द को नीचे दिए विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

उदाहरण - 7 :- निम्न प्रश्न में लुप्त शब्द को नीचे दिए गए विकल्प में से ज्ञात करें।

A : भद्रा :: शान्ति : B

- | |
|-----------------------------|
| (A) A : शांति, B-युद्ध |
| (B) A - मित्रता, B - शोर |
| (C) A - ईमानदारी, B - शनिवा |
| (D) A & कंख्या, B - हडताल |

Ans. (A)

हल:- जिस प्रकार, शुन्दर और भद्रा एक दुसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। उसी प्रकार, शान्ति और युद्ध भी एक दुसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं।

प्रकार - 2 अंग्रेजी अक्षर शब्दसंख्या :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या अक्षर शमूहों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम दो अक्षर - शमूहों के सम्बन्ध को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे अक्षर - शमूह के लिए उसी उत्तर को विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

अंग्रेजी अक्षर तथा अंगत संख्याएँ :-

अंग्रेजी अक्षर A B C D E F G H I J K L M

अंगत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

अंग्रेजी अक्षर N O P Q R S T U V W X Y Z

अंगत संख्या 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

अंग्रेजी अक्षर के द्वारा द्वितीय अंगत अक्षर :-

द्वारा अक्षर - A, E, I, O, U

द्वितीय अक्षर - B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

उदाहरण - 8

CHAIR : RIAHC :: TABLE : ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) BLAET | (B) ETABL |
| (C) LETAB | (D) ELBAT |

Ans. (D)

हल:- जिस प्रकार

CHAIR → RIAHC

उसी प्रकार


TABLE → ELBAT

उदाहरण - 9

HORSE : SERHO :: CURSE : ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) RCUES | (B) SECRU |
| (C) SERCU | (D) ERCUS |
- Ans. (C)

हल :-




उदाहरण - 10

EGH : IJK :: NPQ : ?

- | | |
|---------|---------|
| (A) PRS | (B) RSU |
| (C) RTU | (D) RST |
- Ans. (D)

हल :-



प्रकार - 3 अंग्रेजी शब्द शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में अंग्रेजी शब्दों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम के शब्दों के सम्बन्धों को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे शब्द के लिए उत्तर विकल्पों में से ज्ञात करते हैं।

(i) सम्बन्धित शब्द ज्ञात करना

उदाहरण - 11 :- निम्न प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें, जो तीसरे शब्द से ठीक उत्तीर्ण तरह सम्बन्धित है जिस प्रकार दुक्षिण पद पहले पद से सम्बन्धित है।

Shallow : Profound :: Synonym : ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) Context | (B) Antonym |
| (C) Meaning | (D) Content |
- Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार Shallow का विपरीतार्थक शब्द Profound होता है, उत्ती प्रकार, Synonym का विपरीतार्थक शब्द Antonym है।

(ii) शब्द युग्म के समरूप शब्द युग्म ज्ञात करना :-

उदाहरण - 12 :- निम्नलिखित में से शब्दों का कौन-सा युग्म वैश्वा ही सम्बन्ध दर्शाता है। जिस प्रकार का सम्बन्ध Fan : Heat के बीच है ?

- | |
|-------------------|
| (A) Water : Drink |
| (B) Food : Hunger |
| (C) Light : Night |
| (D) Air : Breath |

Ans. (B)

हल :- जब गर्मी (Heat) होती है, तब पंखा (Fan) चलाया जाता है, उत्ती प्रकार भूख (Hunger) लगने पर भोजन (Food) किया जाता है।

प्रकार - 4 - संख्या शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में संख्याओं के क्रम, संख्याओं के वर्गों के क्रम, अभाज्य संख्याओं के क्रम आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, दुसरे शब्दों में

इसके अन्तर्गत पुछे जाने वाले प्रश्न गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होते हैं।

उदाहरण - 13 :- इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार सम्बन्धित है जिस प्रकार दूसरा पद, पहले पद से सम्बन्धित है।

$$23 : 69 : 27 : ?$$

- | | |
|--------|--------|
| (A) 91 | (B) 73 |
| (C) 81 | (D) 89 |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार $23 \times 3 = 69$

उसी प्रकार $27 \times 3 = 81$

उदाहरण - 14 दिए गए विकल्पों में से किसी संख्या को चुनिए।

$$8 : 32 :: 6 : ?$$

- | | |
|--------|--------|
| (A) 31 | (B) 22 |
| (C) 18 | (D) 21 |

हल :- जिस प्रकार $= 8^2 = 64$

$$64 \div 2 = 32$$

$$\text{उसी प्रकार } = 6^2 = 36$$


$$36 \div 2 = 18$$

उदाहरण - 15 :- दिए गए विकल्पों में से इस विकल्प को छाट कीजिए जो $10 : 13 :: 16$ के समान है।

- | | |
|------------------|------------------|
| (A) 8 : 10 : 15 | (B) 13 : 16 : 19 |
| (C) 23 : 29 : 23 | (D) 10 : 16 : 23 |


हल :- जिस प्रकार

$$10 : 13 :: 16$$



उसी प्रकार

$$13 + 16 + 19$$



उदाहरण हल सहित

(1) जिस प्रकार ईंगिक का सम्बन्ध लेना होता है, उसी प्रकार खिलाड़ी का सम्बन्ध किसीसे है?

- | | |
|---------|------------|
| (A) खेल | (B) कपड़ान |
| (C) टीम | (D) खेलकूद |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, ईंगिक लेना का एक आग होता है, उसी प्रकार, खिलाड़ी, टीम का एक आग होता है।

(2) रक्त और शिरा से सम्बन्धित है वैसे ही तेल किसीसे सम्बन्धित है?

- | | |
|----------|--------------|
| (A) कार | (B) पाइपलाइन |
| (C) इंजन | (D) पेट्रोल |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, रक्त शिरा में बहता है, उसी प्रकार तेल, पाइपलाइन में बहता है।

(3) जिस प्रकार लाल का सम्बन्ध रुकना होता है, उसी प्रकार हरा का सम्बन्ध किसीसे है?

- | | |
|-----------|----------|
| (A) पेन्ट | (B) टंग |
| (C) चलना | (D) दिया |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार लाल टंग का प्रयोग वाहन की टीकड़ी के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हरे टंग का प्रयोग वाहन के चलने या जाने के लिए किया जाता है।

(4) दिवस का शत्रि को वही सम्बन्ध है जो गोदूलिवेला का होता है।

- | | |
|----------------|------------|
| (A) प्रातः काल | (B) ऊजाकाल |
| (C) मध्याह | (D) शायकाल |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार दिवस का विलोम शत्रि होता है, उसी प्रकार, गोधूलिवेला का विलोम ऊषाकाल होता है।

(5) जिस प्रकार महाशामर का सम्बन्ध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का सम्बन्ध किससे है ?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) मीटर | (B) मिलीमीटर |
| (C) किलोमीटर | (D) डेशीमीटर |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार जल का शब्द से बड़ा संचित श्वेत महाशामर है, जबकि शब्द से छोटा श्वेत तालाब है, उसी प्रकार किलोमीटर का शब्द से छोटा श्वेत मिलीमीटर होगा निम्नलिखित प्रश्नों में उसी विकल्प का चयन कीजिए।

(6) चौड़ा : संकीर्ण :: पैना : ?

- | | |
|------------|-------------|
| (A) धारहीन | (B) गुकीला |
| (C) चाकू | (D) झुरद्दा |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, चौड़ा का विपरीत संकीर्ण है उसी प्रकार, पैना का विपरीत धारहीन है।

(7) प्रतिरोध : श्लोम :: विद्युतधारा : ?

- | | |
|--------------|-------------|
| (A) कैरोड़े | (B) एम्पियर |
| (C) ट्रेडिंग | (D) वोल्ट |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक श्लोम है, ठीक उसी प्रकार, विद्युतधारा का मात्रक एम्पियर है।

(8) लखनऊ : उत्तर प्रदेश :: रौची : ?

- | | |
|----------------|---------------|
| (A) झारखण्ड | (B) झोड़िथा |
| (C) उत्तराखण्ड | (D) छत्तीसगढ़ |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, लखनऊ, उत्तरप्रदेश राज्य की राजधानी है, उसी प्रकार, रौची, झारखण्ड राज्य की राजधानी है।

(9) बर्फ : ठण्डक :: पृथ्वी : ?

- | | |
|-------------------|------------|
| (A) वजन | (B) जंगल |
| (C) गुरुत्वाकर्षण | (D) शमुद्र |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, बर्फ में ठण्डक होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है।

(10) देशमकीट : देशम :: नाग : ?

- | | |
|------------|---------|
| (A) विषहर | (B) विष |
| (C) मृत्यु | (D) मरन |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, देशमकीट दे देशम प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार, नाग दे विष प्राप्त किया जाता है

(11) शरीर : कंकाल :: ? व्याकरण

- | | |
|--------------|------------|
| (A) भाषा | (B) अर्थ |
| (C) विद्यालय | (D) शिक्षक |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, शरीर का मुख्य आधार कंकाल है, उसी प्रकार भाषा का मुख्य आधार व्याकरण है।

(12) मैराथन : ढौड़ :: शीतनिद्रा : ?

- | | |
|------------|------------|
| (A) लंकी | (B) भालु |
| (C) श्वप्न | (D) निद्रा |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, मैराथन एक प्रकार की ढौड़ है, उसी प्रकार, शीतनिद्रा एक प्रकार की निद्रा है।

(13) पुरुष : जीवनी :: राष्ट्र : ?

- | | |
|-----------|------------|
| (A) भूगोल | (B) इतिहास |
| (C) नेता | (D) जनता |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, किंती पुरुष के जीवन की कहानी, जीवनी होती है, उसी प्रकार, किंती राष्ट्र की कहानी, इतिहास होती है।

निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भाँति आपस में सम्बन्धित हो ।

(14) तीर : धनुष :: ?

- (A) फुटबॉल : हाथ
- (B) टलाद : चाकू
- (C) गोली : बंदुक
- (D) धुँझँ : पानी

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार तीर चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार गोली चलाने के लिए बंदुक का प्रयोग किया जाता है ।

(15) बुकर पुरस्कार : शाहिंय :: ?

- (A) ग्रेमी पुरस्कार : पत्रकारिता
- (B) पुलितजर पुरस्कार : पत्रकारिता
- (C) ग्लोबल पुरस्कार : फिल्म
- (D) ऑरकर पुरस्कार

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार बुकर पुरस्कार शाहिंय से सम्बन्धित है, उसी प्रकार, पुलितजर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ।

(16) जिस प्रकार ERID सम्बन्धित है DIRE से, उसी प्रकार RIPE सम्बन्धित हैसे ।

- (A) EPIR (B) REPI
- (C) EPRI (D) PEIR

Ans. (A)

हल :- अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है

$$\text{RIPE} = \text{EPIR}$$

(17) जिस प्रकार DRIVE का सम्बन्ध ESJWF से है, उसी प्रकार FIGHT का सम्बन्ध किससे है ?

- (A) EHFGS (B) GJHIU
- (C) GJFHU (D) EJFGU


Ans. (B)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार




(18) जिस प्रकार WT का सम्बन्ध QN से है, उसी प्रकार FC का सम्बन्ध किससे है ?

- (A) KH (B) MJ
- (C) GJ (D) ZW


Ans. (D)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार



(19) ROUGH का UHROG से सम्बन्ध है और PLUCK का UKPLC से सम्बन्ध है तो ANCHOR का सम्बन्धसे है ।

(A) NHRACO

(B) HORANC

(C) ACONHR

(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

Ans. (D)

हल :- निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें
छः अक्षर हैं।

(20) EK : MS :: AG : ?

(A) IM


(B) IJ

(C) IO

(D) JP

Ans. (C)

हल :-



(21) NEUROTIC:TICRONEU::PSYCHOTIC:?

(A) TICCOHPSY


(B) TICOCHPSY

(C) TICCHOPSY


(D) TICHCPSPY

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार



(22) AZBY : CXDW :: EVFU : ?

(A) GHTS


(B) TGBH

(C) GTHS


(D) GSTH

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार



(23) BOTTLE : CQWXQK :: FILLED : ?

(A) GKOPJJ


(B) GKOPJK

(C) GKPOJJ


(D) GHOPJJ

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार



उत्तीर्ण प्रकार



(24) Cricket : Pitch :: Skating : ?

- (A) Rink (B) Ground
 (C) Cowet (D) Ring

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, Cricket, pitch पर खेला जाता है। उत्तीर्ण प्रकार, Skating, Rink में की जाती है।

(25) Oxygen : Burn :: Carbon dioxide : ?

- (A) Isolate (B) Foam
 (C) Extinguishe (D) Explode

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, Oxygen, Burn में शहायक है। उत्तीर्ण प्रकार, Carbon dioxide, Extinguish में शहायक है।

(26) 17 : 24 :: 153 : ?

- (A) 213 (B) 216
 (C) 144 (D) 122
 Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, $17 \times 9 = 153$
 उत्तीर्ण प्रकार, $24 \times 9 = 216$

(27) 64 : 513 :: 144 : ?

- (A) 1727 (B) 1729
 (C) 1728 (D) 1730

Ans. (B)

हल :- प्रथम युग्म

$$8^2 = 64$$

$$8^3 + 1 = 512 + 1 = 513$$

इत्तीर्ण प्रकार

$$(12)^2 = 144$$


$$12^3 + 1 = 1728 + 1 = 1729$$

(28) 63 : 36 :: ? : ?


- (A) 94:49 (B) 35:54
 (C) 47:72 (D) 73:39

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार



उत्तीर्ण प्रकार




निम्न प्रश्नों से उस संख्या का मूल्य की चुनिए, जो प्रश्न में दिए गए संख्या का मूल्य से अधिकतम मेल खाता है।

(29) (12,20,28)


- (A) (3,15,18)
- (B) (18,27,72)
- (C) (18,30,42)
- (D) (7,14,28)

Ans. (C)

हल :- जितन प्रकार



अती प्रकार



(30) (1050,210,42)

- | | |
|--------------|-------------|
| (A) 95,19,3 | (B) 60,12,2 |
| (C) 125,25,6 | (D) 75,15,3 |

Ans. (D)

हल :-

$$1050, (1050 \div 5), (1050 \div 25) =$$

$$1050, 210, 42$$

Ans. (D)

हल :- $1050, (1050 \div 5); (1050 \div 25) =$

$$1050, 210, 42$$

अती प्रकार

$$75, (75 \div 5), (75 \div 25) = 75, 15, 3$$